

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली
हौज खास, नई दिल्ली -110016
(औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई)
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI
Hauz Khas, New Delhi-110016
(Industrial Research & Development Unit)

No. IITD/IRD/RP04981N/

502 929

Dated:17/03/2026

Advertisement No.: IITD/IRD/074/2026

Applications from Indian nationals are invited for project appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा.

About the Project: The Project Scientist will work on one or more projects in Labour Economics and public policy, handling large-scale datasets such as online job postings and official surveys to investigate technology-driven shifts in labour demand, skills, and worker-firm matching across local labour markets.

Title of the Project	Support to Indian Institute of Technology, Delhi for Enhancing Indias Science Technology Policy Analysis Capabilities. (RP04981N)	
Funding Agency	R D Tata Trust, Mumbai	
Name of the Project Investigator	Prof. Ambuj D. Sagar [email ID: asagar@sopp.iitd.ac.in]	
Dept./Centre	School of Public Policy	
Duration of the Project	Upto:28-02-2030	
Post (s)	Consolidated fellowship / Pay-slab	Qualifications
Project Scientist - (01)	Rs. 47,790 - 49,220 - 50,700 - 52,220 - 53,790 - 55,400 - 57,060 - 58,770 - 60,530 - 62,350 /- p.m. plus HRA @30%	Requirements: <ul style="list-style-type: none">• Master's degree in Economics with First Division / Merit.• Proficiency in Stata, Python, and LaTeX (Overleaf) for data analysis and academic writing.• Experience working with large-scale online job postings data and managing administrative datasets.• Strong interest in labor economics, with experience applying causal inference methods for econometric analysis.• One year of research experience as an intern, research assistant, and project scientist.• Excellent analytical, quantitative, and communication skills. Key Responsibilities:- <ul style="list-style-type: none">• Data cleaning and econometric analyses in Stata.• Implement data extraction pipeline using natural language processing methods in Python.• Produce tables, figures, and visualizations using LaTeX.• Conducting literature review; support in preparing presentations and dissemination material. <p>This position is ideal for candidates considering graduate studies in Economics or Public Policy and seeking hands-on experience in applied research.</p>

The candidates who are interested to apply for the above post should download **Form No. IRD/REC-4** from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. **by e-mail with advertisement No. on the subject line to Prof. Ambuj D. Sagar at email id: sugatc@iitd.ac.in**

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the online interview details. Only short-listed candidates will be informed for online interview. In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact **Prof. Ambuj D. Sagar at email id: asagar@sopp.iitd.ac.in**

5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के

